

AU-1479

B.Com. (Part-III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)
(Combination-III)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

- N.B. :-** (1) Attempt all Five questions.
(2) All questions carry equal marks.

1. (a) Write the History of Banking. 4
- (b) Explain the functions of Bank. 4
- (c) Explain the various types of Bank. 3
- (d) State the merits of e-Banking. 3

OR

- (e) Explain the role of e-Banking in the development of Banking Sector. 4
 - (f) State the characteristics of Credit Card. 4
 - (g) Explain the Branch Banking System. 3
 - (h) Write a note on A.T.M. 3
2. (a) What is meant by Co-operative Bank ? Explain its objectives and importance. 14

OR

- (b) What do you mean by Development Bank ? Explain its objectives and role in the Development of Indian Economy. 14
3. (a) Discuss the services rendered by Foreign Bank in India. 4
 - (b) State the determinants of credit policy. 4
 - (c) State the role of Commercial Bank in Indian Economy. 3
 - (d) Write the functions of a Private Bank. 3

OR

- (e) State the limitations of credit creation. 4
- (f) Explain the concept and meaning of Commercial Bank. 4
- (g) Explain the concept of Private Bank. 3
- (h) Write the working of Foreign Bank. 3
- 4. (a) Write the brief history of Reserve Bank of India. 4
- (b) Explain the Importance of State Bank of India. 4
- (c) State the functions of RBI towards Commercial Bank. 3
- (d) Explain the importance of Monetary Policy. 3

OR

- (e) Explain the importance of Reserve Bank of India in economic development. 4
- (f) State the limitation of Monetary policy. 4
- (g) Write the function of RBI towards Govt. 3
- (h) Explain the objectives of Credit Control. 3
- 5. (a) Discuss in detail the provisions of Banking Regulation Act, 1949. 14

OR

- (b) Explain in detail the powers of RBI to regulate Co-operative Banks. 14

AU-1479

B.Com. (Part-III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)
(Combination-III)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(मराठी माध्यम)

नोट :- (1) सर्व प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. (अ) अधिकोषण चा इतिहास लिहा. 4
- (ब) अधिकोषाची कार्ये स्पष्ट करा. 4
- (क) बँके चे विविध प्रकार स्पष्ट करा. 3
- (ड) इ-बँकिंग चे गुण सांगा. 3

किंवा

- (इ) बँकिंग क्षेत्राच्या विकासात ई-बँकिंगची भूमिका स्पष्ट करा. 4
- (फ) पतपत्राची वैशिष्ट्ये (Credit Card) सांगा. 4
- (ग) शाखा बँकिंग प्रणाली स्पष्ट करा. 3
- (ह) ATM वर टिपण लिहा. 3
2. (अ) सहकारी अधिकोष म्हणजे काय ? त्यांची उद्देश आणि महत्व स्पष्ट करा. 14

किंवा

- (ब) विकास अधिकोष म्हणजे काय ? त्यांची उद्देश आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील भूमिका स्पष्ट करा. 14
3. (अ) विदेशी अधिकोषांद्वारे भारतात दिल्या जाणाऱ्या सेवांची चर्चा करा. 4
- (ब) पंत धोरणाचे निर्धारक घटक सांगा. 4
- (क) भारतीय अर्थव्यवस्थेत व्यापारी अधिकोषाची भूमिका सांगा. 3
- (ड) खाजगी बँकेची कार्ये लिहा. 3

किंवा

VOX-34291

3

(Contd.)

- (इ) खाजगी अधिकोषाच्या प्रत्यय निर्मीतीच्या मर्यादा सांगा. 4
- (फ) व्यापारी बँकेची संकल्पना आणि अर्थ स्पष्ट करा. 4
- (ग) खाजगी बँकेची संकल्पना स्पष्ट करा. 3
- (ह) खाजगी बँकेची कार्य प्रणाली (Working) लिहा. 3
4. (अ) भारतीय रिझर्व बँकेचा संक्षिप्त इतिहास लिहा. 4
- (ब) भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे महत्व स्पष्ट करा. 4
- (क) व्यापारी बँकेच्या प्रती आर.बी.आय. ची कार्ये सांगा. 3
- (ड) मौद्रिक धोरणाचे महत्व स्पष्ट करा. 3

किंवा

- (इ) भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे भारताच्या आर्थिक विकासातील महत्व स्पष्ट करा. 4
- (फ) मौद्रिक धोरणाच्या मर्यादा सांगा. 4
- (ग) भारतीय रिझर्व बँकेची सरकारकरीता करावयाची कार्ये सांगा. 3
- (ह) प्रत्यय नियंत्रणाचे उद्देश स्पष्ट करा. 3
5. (अ) अधिकोष नियमन कायदा 1949 मधील तरतुदी विषयी सविस्तर चर्चा करा. 14

किंवा

- (ब) सहकारी अधिकोषाचे नियमन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेच्या अधिकाराची सविस्तर चर्चा करा. 14

AU-1479

B.Com. (Part-III) Examination
INDIAN BANKING SYSTEM
(Banking and Insurance)
(Combination-III)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 70

(हिन्दी माध्यम)

नोट :- (1) सभी प्रश्न हल कीजिये ।

(2) सर्व प्रश्नों के अंक समान हैं ।

- | | |
|--|---|
| 1. (अ) अधिकोषण का इतिहास लिखिए । | 4 |
| (ब) बैंक के कार्यों को स्पष्ट कीजिये । | 4 |
| (क) बैंक के विभिन्न प्रकार स्पष्ट कीजिये । | 3 |
| (ड) ई-बैंकिंग के लाभ बताइए । | 3 |

अथवा

- | | |
|---|----|
| (इ) बैंकिंग क्षेत्र के विकास में ई-बैंकिंग की भूमिका स्पष्ट कीजिये । | 4 |
| (फ) पतपत्र (Credit Card) की विशेषताएँ बताइए । | 4 |
| (ग) शाखा बैंकिंग प्रणाली स्पष्ट कीजिये । | 3 |
| (ह) स्वयंचालित गणक यंत्र ATM पर टिप्पणी लिखिए । | 3 |
| 2. (अ) सहकारी बैंक याने क्या ? उसके उद्देश्य एवं महत्व स्पष्ट कीजिए । | 14 |

अथवा

- | | |
|--|----|
| (ब) विकास बैंक याने क्या ? उसके उद्देश्य एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका को विशद कीजिए । | 14 |
| 3. (अ) विदेशी बैंक द्वारा भारत में दी जानेवाली सेवाओं को स्पष्ट कीजिए । | 4 |
| (ब) प्रत्ययनीति के निर्धारक घटक को बताइए । | 4 |
| (क) भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में व्यापारी बैंक की भूमिका बताइए । | 3 |
| (ड) निजी बैंक के कार्य लिखिए । | 3 |

अथवा

- (इ) निजी बैंक की साख (credit) निर्माण की मर्यादा बताइए । 4
- (फ) व्यापारिक बैंक की संकल्पना एवं अर्थ विशद कीजिए । 4
- (ग) निजी बैंक की संकल्पना स्पष्ट कीजिए । 3
- (ह) विदेशी बैंक की कार्य-प्रणाली (Working) । 3
4. (अ) भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास संक्षेप में लिखिए । 4
- (ब) भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महत्व स्पष्ट कीजिए । 4
- (क) व्यापारिक बैंकों के प्रति RBI के कार्यों की लिखिए । 3
- (ड) मुद्रा नीति का महत्व स्पष्ट कीजिए । 3

अथवा

- (इ) भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत के आर्थिक विकास में महत्व स्पष्ट कीजिए । 4
- (फ) मौद्रिक नीति की मर्यादाएं लिखें । 4
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की सरकार के प्रति कार्यों का लिखें । 3
- (ह) साख नियंत्रण (Credit Control) के उद्देश्यों को विशद कीजिए । 3
5. (अ) अधिकोषण नियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों की विस्तार से चर्चा कीजिए । 14

अथवा

- (ब) सहकारी बैंकों के नियमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारों की विस्तार से चर्चा कीजिए ।

14